

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २०२] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त १, १९७२/श्रावण १०, १८९४

N 202] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 1, 1972/SHRAVANA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 1st August 1972

G. S. R. 369(E).—In pursuance of clause (a) of sub-Section (3) of section 15 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government hereby determines that for the purposes of sections 14 and 15 of the said Act, the rates of exchange for conversion of each

of the foreign currency specified in column (2) of the Schedule below into Indian currency or *vice versa* shall be the rate mentioned against it in column (3) thereof.

THE SCHEDULE

S. No.	Foreign Currency	Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs. 100/-
1.	Austrian Schillings	288
2.	Belgian Francs	554
3.	Canadian Dollars.	12.55
4.	Danish Kroners	88.40
5.	Dutch Guilders	40.20
6.	Deutsche Marks	40.00
7.	French Francs	63.50
8.	Italian Lire	7380
9.	Japanese Yen	3810
10.	Norwegian Kroners	82.60
11.	Pound Sterling	5.2850
12.	Swedish Kroners	60.10
13.	Swiss Francs	47.60
14.	U.S.A. Dollars	12.91

[No. 94/F, No. 503/13/72-Cus. VI.]

P. K. KAPOOR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली 1 अगस्त 1972

सांकांमि० 369(अ) सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा IS की उपधारा (3) के खण्ड (क) का अनुपरण करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह अध्यादेशित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 और 15 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अनुसूची के स्वम्भ (2) में

विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी करेंसी से भारतीय करेंसी में और भारतीय करेंसी से विदेशी करेंसी में संवर्धन के लिए विनिमय की दरें वे होंगी जो उनके मामले उनके स्तम्भ (3) में वर्णित हैं।

अनुसूची

क्रम सं० विदेशी करेंसी 109 रु० के समतुल्य की विदेशी करेंसी की विनिमय दर

(1)	(2)	(3)
1.	ऑस्ट्रियाई शिलिंग	288
2.	बेल्जियन के फ्रैंक	354
3.	कनाडा के डालर	12.55
4.	डेनमार्क के क्रोनर	88.40
5.	डच गिल्डर	40.20
6.	जर्मन (डूस्ले) मार्क	40.00
7.	फ्रांस के फ्रैंक	63.50
8.	इताली लीरा	7380
9.	जापानी येन	3810
10.	नार्वे के क्रोनर	82.60
11.	पोण्ड स्टलिंग	5.2850
12.	स्वीडन के क्रोनर	60.10
13.	स्विट्जरलैंड के फ्रैंक	47.60
14.	संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर	12.91

[सं० 94/फा० सं० 503/13/72-रु सं०-6]

पी० के० कपूर, प्रवर सचिव।

